



## भिन्नों का घटाव (मिश्रित अंश)

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_ स्कोर: \_\_\_\_\_

$$1\frac{1}{5} - \frac{4}{5} =$$

$$1\frac{1}{5} - \frac{2}{6} =$$

$$1\frac{2}{4} - \frac{3}{5} =$$

$$3\frac{1}{2} - \frac{1}{8} =$$

$$1\frac{2}{3} - \frac{1}{6} =$$

$$\frac{7}{9} - \frac{3}{6} =$$

$$1\frac{1}{4} - \frac{6}{8} =$$

$$\frac{4}{8} - \frac{2}{6} =$$

$$1\frac{2}{3} - 1\frac{2}{5} =$$

$$\frac{3}{4} - \frac{1}{8} =$$



## भिन्नों का घटाव (मिश्रित अंश)

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_ स्कोर: \_\_\_\_\_

$$1\frac{1}{5} - \frac{4}{5} = \frac{2}{5}$$

$$1\frac{1}{5} - \frac{2}{6} = \frac{13}{15}$$

$$1\frac{2}{4} - \frac{3}{5} = \frac{9}{10}$$

$$3\frac{1}{2} - \frac{1}{8} = \frac{27}{8} = 3\frac{3}{8}$$

$$1\frac{2}{3} - \frac{1}{6} = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$$

$$\frac{7}{9} - \frac{3}{6} = \frac{5}{18}$$

$$1\frac{1}{4} - \frac{6}{8} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{4}{8} - \frac{2}{6} = \frac{1}{6}$$

$$1\frac{2}{3} - 1\frac{2}{5} = \frac{4}{15}$$

$$\frac{3}{4} - \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$$